

اورینٹل کالج میں ووٹر بیداری ریلی



پٹنہ سٹی (پی این ایس) اورینٹل کالج پٹنہ سٹی کے راشنریہ سیویا یوجنا کے ورکروں کے ذریعہ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر سید اقبال افضل اور نائب پرنسپل پروگرام افسر ڈاکٹر محمد ربان علی کی مشترکہ قیادت میں ووٹر بیداری مہم چلائی۔ مختلف نعرہ لکھے تختی کے ساتھ طلبا و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مختلف راستوں سے گزر کر سبھی ووٹس کو اور خاص کر نوجوان ووٹس کو ووٹ دینے پر زور دیا۔ پرنسپل نے کہا کہ جمہوریت میں سبھی کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہئے۔ ووٹ دینا ملک کیلئے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسا کر کے ہم ایک اچھی سرکار بنا سکتے ہیں۔ ملک کے لئے یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی۔ موقع پر ڈاکٹر ممتاز احمد، ڈاکٹر اقبال احمد، ڈاکٹر تنویر حسن نظامی، ڈاکٹر سید محمد بختیار فاطمی، عندلیب مصطفیٰ اور کالج کے سبھی ٹیچرس ملازمین شامل تھے۔











शिक्षकों को कॉलेज में सात घंटे रहना होगा, खुद भी होगा पढ़ना

राजभवन ने जारी किया है दिशा निर्देश, कमजोर छात्रों पर देना होगा विशेष ध्यान

जागरण सतादशता, छपरा : जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को अब कैंपस में अनिवार्य रूप से सात घंटे रहना होगा। राजभवन ने कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यह निर्देश जारी किया है। इससे पहले शिक्षकों की परेशानी बढ़ने वाली है जो बस हाजिरी बनाने के लिए पहुंचते हैं।

राज्यपाल के सचिव सह आवुक्त शाश्वत मिश्रा ने सूबे के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अंगीभूत व संबद्ध कॉलेज एवं पीजी विभाग के शिक्षकों को अब परिसर में कम से कम सात घंटे रहना होगा। हालांकि कॉलेज में नियुक्त अतिथि शिक्षकों के साथ यह बाध्यता नहीं है। वे पूर्व की भांति क्लास के अनुसार आएंगे। राजभवन ने नया नियम इसी सत्र से लागू करने का निर्देश दिया है। कॉलेज एवं पीजी विभाग में पढ़ाई के साथ ही शोध कार्य, संगोष्ठी करने का निर्देश दिया गया है।

पत्र में कहा गया है कि सात घंटे कैंपस



जयप्रकाश विश्वविद्यालय में राजभवन के दिशा निर्देश का अमलना : पालन किया जाएगा। इसकी सूचना छपरा, सिवान एवं गोपालगंज के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेज के प्राचार्य को दी जाएगी। ये शिक्षकों को राजभवन के आदेश की सूचना देंगे।
डॉ. केदार नाथ, जनसंपर्क पदाधिकारी, जेपी विश्वविद्यालय, छपरा

में रहने पर शिक्षकों को क्लास लेने के बाद पुस्तकालय में खुद अध्ययन करना है। शोध कार्य में छात्रों की मदद करनी है। प्रयोगशाला में समय बिताना है। शिक्षकों को यह भी जिम्मेवारी दी गई कि विलंब से नामांकन के कारण कई छात्रों का सिलेबस पीछे हो जाता है। उन्हें भी इस समय में पूरा करवाना है। इतना ही नहीं शिक्षकों को कमजोर छात्र-छात्राओं के लिए स्पेशल क्लब्स चलाना है। शिक्षकों को अपने विभाग के छात्रों का ब्योरा भी रखना है। अगर छात्र निवमित नहीं आ रहे हैं तो परिजनों को मोबाइल पर कॉल कर इसकी सूचना शिक्षक देंगे। विद्यार्थियों

को पोस्ट कार्ड लिखकर भी क्लास करने के लिए बुलाना पड़ेगा। विद्यार्थी क्लास करने नहीं आ रहे हैं तो वे परीक्षा फार्म नहीं भर सकेंगे यह जानकारी अभिभावक को देनी होगी। अब शिक्षक यह कहकर अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते कि विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं तो किसे पढ़ाएं। शिक्षकों को यह जिम्मेवारी है कि वे अपने विभाग में नामांकित छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। प्राचार्य समेत अन्य सक्षम पदाधिकारी को यह जिम्मेवारी दी गई है वे इसकी निगरानी करें।

छात्रों की 75 फीसदी उपस्थिति की होगी निगरानी : शिक्षक ही नहीं छात्र-

पाठ वन सस्सिडिवरी की परीक्षा में नकल करते 12 निष्कासित

जासं, छपरा : स्नातक प्रथम खंड (सत्र 2018-21) की सस्सिडिवरी विषय की परीक्षा की परीक्षा के तीसरे दिन शुक्रवार को नकल करते 12 परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। किया गया। परीक्षा नियंत्रक डा. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि छपरा, सिवान एवं गोपालगंज के विभिन्न केंद्रों पर यह निष्कासन किया गया है। वहीं दूसरी ओर पाठ वन वोकेशनल कोर्स (सत्र 2018-21) की बायो टेक, बीबीए, बीएमसी कोर्स की परीक्षा शुक्रवार को दूसरे दिन शांतिपूर्ण हुई। छपरा, सिवान एवं गोपालगंज के परीक्षार्थियों के लिए एक केंद्र बनाया गया है।

छात्राओं पर भी राज भवन ने निगरानी बढ़ा दी है। पीजी विभाग एवं कॉलेज प्रशासन को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना 75 फीसदी उपस्थिति का किसी भी छात्र-छात्राओं को परीक्षा फार्म नहीं भरा जाएगा।

रा
अ
डी
सं
को
रनि
में
अ
से
वि
की
बा
के
लि
जप
शु
अ
कि
हो
लि
देने
को
तो
दी
भी
है
प्र
पु
लि
अ
रु
की
पा
की





करें योग रहें निरोग के तहत हर तबके के लोगों ने किया योगा



संवाददाता



पटना सिटी, 21 जून। करें योग और रहें निरोग। आज की भाग-दौड़ की दुनिया में हर कोई ऐसा व्यस्त हो गया है कि उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय नहीं है।

मगर जब वे बीमार होते हैं, तो डाक्टर के यहां नंबर लगाने, फीस देने, दवा खरीदने व खाने का समय निकल आता है। दरअसल हम सभी सुबह का आधा घंटा भी अपने सेहत के लिए देकर योगा करें, तो बेहतर एनर्जी मिलने के साथ ही शरीर भी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होगा। यह बात पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव एवं अन्य वक्ताओं ने पाटलिपुत्र परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। मनोज कमलिया स्टेडियम में योगा के आयोजित कार्यक्रम में मंत्री

नंदकिशोर यादव, डा. टीपी गोलवारा, संजीव यादव आदि ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इसके बाद सबों ने योग प्रशिक्षक के द्वारा योगासन किया। राजकीयकृत मारवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य पुनीत किशोर रजक ने कहा कि योग संपूर्ण शारीरिक शक्ति के विकास और हृदय नियंत्रण की अभ्यास प्रक्रिया है। उन्होंने शिक्षकों को भद्रासन, उपविष्टकोणासन, मकरासन, मतस्यासन और एक पाद राजकापोतासन योग कराया। इसमें वरीय शिक्षक मनोज कुमार, देवमुनि सिंह, अनिल रश्मि, दूधेश्वर प्रसाद गुप्ता, डॉ शीला कुमारी, मो. मुजाहिद हुसैन, नेक आलम, विक्रम कुमार, सुनील कुमार, तलत जहां, मेहरून निशा आदि ने भाग लिया। क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में योग दिवस पर

अनुसंधान पदाधिकारी डॉ राजेश कुमार के नेतृत्व में मनाया गया। योग शिक्षक जनार्दन कुमार शर्मा ने संस्थान के पदाधिकारियों व कर्मियों को योगासन कराया एवं योग के माध्यम से बीमारियों के निदान के बारे में बताया। इस दौरान डॉ मो. मंजर आलम, डॉ हशमत इमाम, डॉ शबाना खातून, अनिर्बान गोस्वामी, परवेज अख्तर, नदीम अख्तर, मो. एजाज आलम, खालिक नवाज खान आदि ने योग किया। ओरिएंटल कॉलेज में एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स द्वारा योग शिविर किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षक व कर्मियों ने भी भाग लिया। इसका नेतृत्व प्राचार्य डॉ एस एकबाल अफजल, उप प्राचार्य डॉमो. रब्बान अली, सहयोगी डॉ एकबाल अहमद, समीउल हक, परवेज, सुजीत कुमार आदि ने किया।











दैनिक भास्कर
05 जून 2019

dainikbhaskar.com

ओरिएंटल कॉलेज में पौधरोपण कर लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प



पटना सिटी | ओरिएंटल कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एस इकबाल अफजल, उप प्राचार्य डॉ. मो. रब्बान अली, डॉ. इकबाल अहमद समेत अन्य मौजूद रहे।

11वें
रेगुल

इशा
और
रेगुल
ऐसे
जह
जि
डेव
वज
प्रति
ईश
क्ल
क्लि
है।
इंज
हों
चर
कर

'दैनिक भास्कर'

हिन्दी दैनिक

05 जून 2019

विश्व पर्यावरण दिवस



اورینٹل کالج پٹنہ میں یوم عالمی ماحولیات کے موقع پر شجرکاری کرتے طالبات و اساتذہ (تصویر: ایس این بی)

۵۲۰

بگ کرا۔ یکننا اتے کامیڈی

کا آئرنی میٹر 25 فیصد کا انا

'राष्ट्रीय लक्षणा' हिन्दी दैनिक

05 जून 2019


विश्व पर्यावरण दिवस

राष्ट्रीय लेखा योजना




विश्व योग दिवस

21 जून 2017



विश्व योग दिवस

21 जन 2017



विश्व योग दिवस

21 जून 2017



विश्व पर्यावरण दिवस

05 जून 2017



05 जून 2017



05 जून 2017





अशोक राजपथ पर प्राणव श्रृंखला

21 जनवरी 2017



अशोक राजपथ पर मानव श्रृंखला
21 जनवरी 2017



अशोक राजपथ पर मानव शृंखला
21 जनवरी 2017



राष्ट्रीय सेवा योजना
स्थापना दिवस



राष्ट्रीय योजना
स्थापना दिवस

तन और मन को निरोग रखने का साधन

पटना सिटी | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

योग न केवल एक व्यायाम मात्र है बल्कि मन-प्राण व शरीर को निरोग रखने का सशक्त माध्यम है। ये बातें पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने मनोज कमलिया स्टेडियम, मंगलताल्लब में भाजपा द्वारा आयोजित चौथी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उदघाटन मौके पर कहीं L संयोजक संजीव यादव ने कहा कि नियमपूर्वक योग करने से मनोरोग, तनाव, मधुमेह, हृदय रोग समेत कई बीमारियों से निजात मिलता है। यह भारत की पांच हजार वर्ष पुरानी विद्या है।

राजकीयकृत भारवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य पुनीत

किशोर रजक ने कपालभित्ति, ओलाग-विलोम समेत योग के अन्य तरीकों को बताया। भारत विकास परिषद की ओर से बाबा रामदास आश्रम में योग शिविर चलाया गया।

ओरियंटल कॉलेज में प्राचार्य डॉ. एस एकबाल अफजल के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने योग किया। मौके पर मो. इकबाल आलम, फहीम सिद्की, उसमान मंजर, परवेज अनवर मौजूद थे। किल्ला रोड स्थित जीजीएस कॉलेज में एनएसएस व एनसीसी की ओर से योग शिविर लगाया गया। प्रभारी प्राचार्य प्रो. ब्रजेशपति त्रिपाठी ने योग जीवन के प्रति कई पहलुओं की चर्चा की। मौके पर डॉ. गौरीनाथ राय, डॉ. रामस्वरूप भगत व अन्य शामिल थे।



पटना सिटी में लगाए गए योग शिविर में मुस्लिम युवतियों की भी रही भागीदारी।

'हिन्दुस्तान'
हिन्दीदिनिक
(PATNA LIVE)

22 जून 2018

विश्व योग दिवस

22 जून 2018

Y 22 JUNE 2018

METRO

HEAD-TURNERS

PATNA



The Telegraph headline does its own twist and turn in tribute to those who performed asanas with aplomb on International Day of Yoga

GULZARBAGH



MUZAFFARPUR



GAYA OTA



BODHGAYA



ARA



ORIENTAL COLLEGE, PATNA CITY



MUNGER



Pictures by Nagendra Kumar Singh, Rajiv Nayan Agrawal, Sachin, Parvej Akhtar, Pankaj Kumar and Sumati

WORLD YOGA DAY



ओरिएंटल कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पौधरोपण करते प्रचार्य व छात्र।

'दैनिक जागरण'

हिन्दी दैनिक

05 जून 2018

विश्व पर्यावरण दिवस